



ALMA TIMES

Website : www.almatimes.in | www.almanews.in | www.alma.in

E-mail : news@alma.in • Ph: 0731- 4222242 • Fax : 0731-2573779

इन्दौर (मध्यप्रदेश), 5 अप्रैल 2013

वर्ष-12, अंक-9 (मासिक)

पृष्ठ-8 | मूल्य- ₹2



Alma is promoting the cause of Computer Education: Pankaj Sharma



INDORE: It is really appreciative performance of Alma across the world in promoting the cause of Computer and IT Education to motivate the Student Communities and Youth as well. These views were expressed by Shri Pankaj Sharma (Secretary All India Congress Committee, New Delhi) at the social function of Alma, All India IT Association (aiita), International Brahmin Parliament (IBP) organized at Alma HQ. On this occasion Guests including Pt. Vishnu Prasad Shukla (Sr. BJP Leader, Chairman, Alma), Pt. Ram Narayan Tiwari (Sr. Congress Leader), Shri Chandra Prabhaskar Shekhar (Ex. Minister, Govt. M.P.), Shri Rameshwar Patel (Ex. Minister, Govt. of M.P.), Shri Ashwin Joshi (MLA), Smt. Shobha Oza (Sr. Congress Leader), Shri Laxmikant Pandey (Labour Commissioner), Shri Kamal Verma (Secretary, Madhya Pradesh Congress Committee, Shri Jitendra Tripathi (Advocate, High Court) were present. The member of Alma family presented garlands and memento to Shri Pankaj Sharma and other guests. In this function Shri Sharma has given his consent of being Patron for IBP and Alma family.

BRICS should drive global growth: PM

DURBAN: Prime Minister Manmohan Singh outlined a five-point charter to strengthen BRICS - an association of Brazil, Russia, India, China and South Africa - and to keep it as the main driver of global economic growth post-2008 slowdown of the West. Speaking at the plenary of the fifth BRICS summit,



Singh said the roadmap for the future "should focus on consolidating and deepening our existing cooperation".

Singh said the first challenge was to respond to the persisting weaknesses in the global economy by "harnessing the vast opportunities for expanding trade and investment ties" between the BRICS countries. The PM said BRICS countries must exploit their

complementarities for mutual benefit. Secondly, the PM called for further research and development cooperation amongst BRICS to tackle similar challenges that member countries face. Third, Singh said, making economic development more broad-based and inclusive, was not "only a moral imperative, but a pragmatic approach to make the global economy more sustainable and enhance political and social stability." BRICS countries should work more cohesively in international forums, as the fourth strategy. Fifth point put forward by the prime minister was to work for the reform of global institutions of political and economic governance. The prime minister invited the attention of BRICS countries to the security challenges faced by the world, counting "terrorism, piracy and the emerging threats from cyber-space" among the most important security concerns. Singh said the importance that India attached to BRICS was not only for the benefit of Indians but also for the world at large. "My conviction comes not merely from our capacity, but also from the purposeful manner in which we have worked together," Singh said. During his two-day stay in Durban, Singh held bilateral meetings with leaders from all the other four member countries.

Parth Shukla nominated as Toronto President of International Brahmin Parliament (IBP)



CANADA: Young and dynamic with co-operative nature Shri Parth Shukla (Canada) has been nominated as Toronto City

IBP has been nominated to well-known and intellectual Shri Parth Shukla. He has long been associated with Brahmin activities across Canada and under his leadership youth generation got precious guidance and values of life and humanity.



President of International Brahmin Parliament (IBP) for two years. This is informed by the president of International Brahmin Parliament Shri Santosh Shukla, Advocate. On this occasion, Shri Shukla informed that the Toronto City Presidentship of

Significantly, Shri Shukla has always been active in performing Social and Cultural activities with verve. On this occasion, President Shri Shukla told that IBP will nominate regional and city Presidents for Quebec, Alberta, Ontario, Manitoba, British Columbia, New Foundland and Labrador very shortly to expand the objectives of IBP.

Boost to Self Regulatory Organizations: Manish Tiwari

Indore hosts 3 days SAARC Journalists' Summit (by Alma Correspondent)



INDORE: India is big democratic country since its independence, India underwent dynamic changes and proved its caliber in every respective field of knowledge and expertise. Print and Electronic Media have been no exception in this regard.

They are Self Regulatory Organization and educate masses through happenings around them. It's high time to boost them through constitutional framework.

These views were expressed by Shri Manish Tiwari (Union Minister of State, Independent Charge, Minister of Information and Broadcasting), at the Inauguration of three days Summit of SAARC Journalists. Shri Tiwari spoke out the need to put a protocol on media to sustain democratic values and awareness among people. He appreciated the initiative proposed by Indore Press Club (IPC) to have research institution for empirical studies and researches of issues pertaining to National growth and

Society as well. On this occasion, Shri Rahul Dev (Senior Journalist, Electronic Media), Shri Pankaj Sharma (Secretary AICC), Shri Kantilal Bhuria (President MPCC), Shri Shravan Garg (Senior Journalist), Shri K. Vikramrao and other expressed their view over the impact of social media. In this summit, There were more than 30 Media experts and 100 experts from different parts of the country actively took part. In this summit, Youth, Social Media and National Development, Role of Media in Public Movement, Pressure of Market forces on News, Literature in 21st Century and Crisis due to Repeated Election have been dealt through positive discussions. Shri Praveen Khariwal (President, Indore Press Club) said that Media Awards were given to 15 scribes of TV and Print Media who hailed from Madhya Pradesh but working outside. The function was conducted and vote of thanks had been given by Shri Arvind Tiwari. In this function Dr. Dilip N. Pandit and Dr. Pradeep Mishra participated from Alma Group.



Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (Recognized by UGC & DEC)



| | |
|--------------|---------------|
| BBA | MBA |
| B.Sc. | M.Sc. |
| B.Com | M.Com. |
| B.A. | M.A. |
| PGDCA | DCA |

Valid for all Govt. Vacancies

For More Information Contact:

Ms. Ankita Suri
Ph: 0731 4222242 | Mob: 097556-72111
Email: ankita@alma.in, www.alma.in

अल्मा की राष्ट्रीय गतिविधियाँ

बल्लभगढ़ (हरियाणा) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन का शुभारंभ



बल्लभगढ़। हरियाणा के बल्लभगढ़ क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर अल्मा ने पिछले दिनों अपने नये सेन्टर का उद्घाटन किया। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री वेदप्रकाश बेनीवाल ने बताया कि यहाँ पर आई.टी. शिक्षा का लगाव विद्यार्थियों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन भी दिया जाता है। बल्लभगढ़ सेन्टर के शुभारंभ पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट तथा अल्मा बोर्ड की डॉ. सुचिता शुक्ला सहित डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने बधाइयाँ दी।

फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) में अल्मा वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर का उद्घाटन



फतेहगढ़ साहिब। विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग में वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने एवं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अल्मा ने फतेहगढ़ साहिब में पिछले दिनों नये वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर का उद्घाटन किया। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी। इस मौके पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री करमसिंह ने बताया कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के विभिन्न कोर्सेस के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे रोजगार पाने के क्षेत्र में वे सफल हो सकें। हमारे यहाँ प्रत्येक वोकेशनल कोर्स के लिए कुशल फैकल्टी स्टाफ रखा गया है जो विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दे सके। फतेहगढ़ साहिब के नये वोकेशनल सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट तथा अल्मा बोर्ड की डॉ. सुचिता शुक्ला एवं श्री राजेश शुक्ला ने श्री करमसिंह एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

पिहोवा (कुरुक्षेत्र, हरियाणा) में अल्मा स्कूल प्रोजेक्ट सेन्टर का शुभारंभ



कुरुक्षेत्र। स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में अल्मा स्कूल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जो विद्यार्थियों को अपनी औपचारिक शिक्षा के साथ कम्प्यूटर शिक्षा का अनुभव देता है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के पिहोवा में अल्मा स्कूल प्रोजेक्ट सेन्टर का शुभारंभ किया गया। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री सतीश मेहला ने बताया कि स्कूल प्रोजेक्ट का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हमारे सेन्टर द्वारा आसपास के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जाती है। सेन्टर के फैकल्टी स्टाफ द्वारा स्कूल के स्टाफ को हम प्रशिक्षित भी करते हैं। पिहोवा अल्मा स्कूल प्रोजेक्ट सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट तथा अल्मा बोर्ड की डॉ. सुचिता शुक्ला, डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित चंडीगढ़ के विकास अधिकारी श्री रविकांत शर्मा ने श्री सतीश एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

कोटला (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर



कोटला। हिमाचल प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा को शहरों से लेकर घाटियों में स्थित छोटे-छोटे गाँवों में जोड़ने के कार्य में सक्रिय अंतराष्ट्रीय ब्रांड अल्मा ने अपनी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए पिछले दिनों कांगड़ा जिले के कोटला में नये कम्प्यूटर सेन्टर का शुभारंभ किया। इस मौके के सेन्टर हेड श्री अजय कुमार ने बताया कि हमारे क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ के स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का अध्ययन भी कराया जा रहा है। मगर अल्मा के कम्प्यूटर कोर्सेस केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि नाम-मात्र के शुल्क पर संचालित किए जाते हैं। हमारे सेन्टर में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कुशल फैकल्टी स्टाफ रखा गया है। वे उन्हें करियर गाइडेंस देने का कार्य भी करते हैं। हमने स्कूल-कॉलेजों में सेमीनार आयोजित कर विद्यार्थी वर्ग को इस दिशा में प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। कोटला सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा डॉ. मोनिका नागौरी ने श्री अजय कुमार एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

जौनपुर (उ.प्र.) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ



जौनपुर। अल्मा ने अपने विकास कार्य को गति देते हुए पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के जौनपुर जिले के मडियाहू क्षेत्र में कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री पंकज सिंह केसरी ने बताया कि हमारे सेन्टर पर अल्मा के सभी आधुनिक कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़े कोर्सेस का संचालन कुशल फैकल्टी स्टाफ के माध्यम से किया जा रहा है एवं विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस भी दिया जा रहा है। जौनपुर सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री पंकज सिंह एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

इन्दौर (म.प्र.) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ



इन्दौर। कम्प्यूटर एवं आई.टी. शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल ब्रांड के रूप में चर्चित अल्मा ने अपनी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए पिछले दिनों इन्दौर में अपने नये कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री शांका हार्डिया ने कहा कि हमारे सेन्टर पर अल्मा के समस्त जॉब ओरियन्टेड एवं वोकेशनल कम्प्यूटर कोर्सेस का संचालन कुशल फैकल्टी स्टाफ के माध्यम से किया जाता है। सेन्टर पर विद्यार्थियों को करियर काउन्सलिंग भी दी जाती है। इन्दौर सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री शांका हार्डिया एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

राजकोट (गुजरात) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ



राजकोट। गुजरात का चर्चित जिला राजकोट अपने व्यापारिक हब के साथ-साथ एजुकेशनल हब के रूप में लोकप्रियता के मायने बदलता जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल ब्रांड अल्मा ने अपने विस्तार कार्य को बढ़ाते हुए राजकोट में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर की शुरुआत की। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री त्रिवेदी चेतन कुमार रमणीकलाल ने बताया कि उनके सेन्टर पर अल्मा के सभी कम्प्यूटर कोर्सेस का संचालन किया जाता है। सेन्टर पर कुशल फैकल्टी स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को करियर काउन्सलिंग भी दी जाती है। राजकोट सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री त्रिवेदी एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

मुम्बई (महाराष्ट्र) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ



मुम्बई। कम्प्यूटर क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्यात ब्रांड के रूप में पहचान बनाने वाली अल्मा ने पिछले दिनों मुम्बई के कमोथे क्षेत्र में नये अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर की शुरुआत की। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री योगेश राउतेला ने बताया कि उनके सेन्टर पर अल्मा के सभी कम्प्यूटर कोर्सेस का संचालन किया जाता है। सेन्टर पर कुशल फैकल्टी स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को करियर काउन्सलिंग भी दी जाती है। कमोथे सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री योगेश को बधाइयाँ दी।

अल्मा के वाजा नरेन्द्र धीमतभाई का निधन-भावभीनि श्रद्धांजलि



इन्दौर। अल्मा परिवार से जुड़े गुजरात के सेन्टर हेड वाजा नरेन्द्रभाई का पिछले दिनों आकस्मिक निधन हो गया। वे अल्मा परिवार से लम्बे समय से जुड़े रहे एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर शिक्षा की जन-जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे। उनके आकस्मिक निधन पर अल्मा परिवार की ओर से चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट एवं समस्त पदाधिकारियों ने दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी का पत्र अल्मा के नाम

DR MURLI MANOHAR JOSHI
Member of Parliament (Lok Sabha)
CHAIRMAN
Public Accounts Committee



51, Parliament House
New Delhi-110 001
Tel. 23034605, 23017564



MESSAGE

I am happy to know that ALMA organization is going to publish 'Alma Magazine 2013' a global edition. This magazine is prime initiative to communicate latest information about Alma's development, enhancing technological development views and reviews of contemporary scenario of IT Sector across the globe. Computing is the basis of all material progress. Nations with high computing abilities grow faster in economic development.

Alma has long been supportive and devoted to spread computer education and computer literacy throughout the country by running number of its centers. To generate employment opportunities and help students in getting necessary computer skills, Alma has offered many job opportunities among youth.

My goodwishes for the organisation and also the publication.

(Murl Manohar Joshi)

New Delhi;
January 30, 2013

Res.: 6, Raisina Road, New Delhi-110 001 • Telephones : 23718444, 23711144 • Fax : 23711772
Flat No. 4, Ground Floor, B-Block, Vrat Villa, Mehmoorganj, Varanasi-221010 (U.P.)
Telephone : (0542) 2222377 • Fax : (0542) 2226377 • E-mail : murlis@ansad.nic.in

जालंधर (पंजाब) में अल्मा के ब्यूटी एण्ड फैशन डिजाइनिंग सेन्टर की शुरुआत



जालंधर। राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर एजुकेशन के साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस को बढ़ावा देने में गतिशील अल्मा ने पिछले दिनों पंजाब के जालंधर में ब्यूटी एण्ड फैशन डिजाइनिंग सेन्टर की शुरुआत की। इस अवसर पर यहाँ की सेन्टर हेड श्रीमती सरबजीत कौर ने बताया कि हमारे सेन्टर पर अल्मा के ब्यूटी एण्ड फैशन डिजाइनिंग से संबंधित समस्त वोकेशनल कोर्सेस का संचालन किया जाता है एवं विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस भी दिया जाता है। जालंधर ब्यूटी एण्ड फैशन डिजाइनिंग सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्रीमती कौर एवं स्टाफ को बधाइयाँ दी।

नागपुर (महाराष्ट्र) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ



नागपुर। महाराष्ट्र प्रदेश का लोकप्रिय शहर नागपुर न केवल संतों के लिए अपनी पहचान रखता है बल्कि कम्प्यूटर एवं आई.टी. शिक्षा में अपनी भूमिका को रेखांकित कर रहा है। पिछले दिनों अल्मा ने अपनी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए नागपुर में नये अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर की शुरुआत की। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री सचिन सिद्धा एवं श्री सदीप भावनकर ने बताया कि उनके सेन्टर पर अल्मा के सभी कम्प्यूटर कोर्सेस का संचालन किया जाता है। सेन्टर पर कुशल फैकल्टी स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों को करियर काउन्सलिंग भी दी जाती है। नागपुर सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन



पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री सचिन एवं श्री भावनकर तथा उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

जींद (हरियाणा) में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का भव्य शुभारंभ



जींद। हरियाणा राज्य देश के उन राज्यों में अग्रणी है जिन्होंने बहुत ही कम समय में न केवल देश में बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को मजबूत बनाते हुए आई.टी. क्षेत्र को नई दिशा दी है। कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में इन्टरनेशनल स्तर पर चर्चित ब्रांड अल्मा ने पिछले दिनों हरियाणा के जींद क्षेत्र में अपने नये कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ किया। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी। इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री विशाल वत्स ने बताया कि इस सेन्टर पर अल्मा के सभी आधुनिक कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़े कोर्सेस का संचालन कुशल फैकल्टी स्टाफ के माध्यम से किया जा रहा है। यह स्टाफ विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस के साथ-साथ रोजगार के क्षेत्र की जानकारी भी देता है। उन्होंने बताया कि हमने क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आस-पास के क्षेत्रों में सेमीनार और वर्कशॉप का आयोजन कर उनमें जागरूकता उत्पन्न की। जींद सेन्टर की शुरुआत पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णु प्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा, डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट तथा समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री विशाल वत्स को बधाइयाँ दी।

अम्बाला (पंजाब) IBP यूथ संगठन में अरुण जोशी अध्यक्ष मनोनीत



नई दिल्ली। इंटरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट (IBP) के अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने बताया कि IBP की राष्ट्रीय गतिविधियों के तहत यूथ संगठन के पदाधिकारियों का मनोनयन किया जा रहा है। इस दिशा में अम्बाला में संगठन के विस्तार को बढ़ाने हेतु युवा श्री अरुण जोशी को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। श्री शुक्ला ने बताया कि श्री जोशी की नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा एवं क्षेत्र में IBP का विस्तार अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को वर्ष में चार बार अवगत कराते हुए प्रतिवेदन भेजेंगे। इस अवसर पर IBP के अंतराष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री अरुण जोशी को बधाइयाँ दी।

सूरत (गुजरात) IBP यूथ संगठन में सुधीर मिश्रा अध्यक्ष मनोनीत




नई दिल्ली। इंटरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट (IBP) के अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने बताया कि IBP की राष्ट्रीय गतिविधियों के तहत यूथ संगठन के पदाधिकारियों का मनोनयन किया जा रहा है। इस दिशा में सूरत (गुजरात) में संगठन के विस्तार को बढ़ाने हेतु युवा श्री सुधीर मिश्रा को अध्यक्ष एवं श्री मयूर दवे को सचिव पद पर मनोनीत किया गया है। श्री शुक्ला ने बताया कि श्री मिश्रा की नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा एवं क्षेत्र में IBP का विस्तार अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को वर्ष में चार बार अवगत कराते हुए प्रतिवेदन भेजेंगे। इस अवसर पर IBP के अंतराष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री सुधीर मिश्रा एवं श्री मयूर दवे को बधाइयाँ दी।



भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र की पुस्तकों का विमोचन

सर्वश्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, शरद यादव, प्रकाश जावड़ेकर एवं फिल्म अभिनेतागण उपस्थित



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र के जीवन पर केन्द्रीत पुस्तक 'राष्ट्रवादी कर्मयोगी' तथा 'ज्युडिशल एकाउन्टेबलिटी' का विमोचन पिछले दिनों नई दिल्ली के कास्टीट्यूशनल ऑडिटोरियम में किया गया। इस विमोचन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी (पूर्व मानव संसाधन मंत्री), श्री राजनाथ सिंह (भाजपा अध्यक्ष), श्री शरद यादव

(अध्यक्ष जेडीयू), श्री प्रकाश जावड़ेकर (राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा) एवं फिल्म अभिनेता श्री मुकेश खन्ना व विवेक ओबेराय आदि अतिथियों के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर कलराज मिश्र ने मंच की शोभा बढ़ाते हुए इन दोनों पुस्तकों के विमोचन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। श्री मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक 'राष्ट्रवादी कर्मयोगी कलराज मिश्र' में श्री मिश्र के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के चार दशकों की उपलब्धियों और कर्मठता को शब्दचित्र के माध्यम से प्रकट किया गया। इस पुस्तक को श्री मिश्र की कर्मठता से निकटता रखने वाले विद्वानों के संस्करणों से जीवन्त बनाया गया। श्री मिश्र के द्वारा लिखी पुस्तक 'ज्युडिशल एकाउन्टेबलिटी' की विषय सामग्री तत्कालीन न्याय व्यवस्था की वस्तुस्थिति को रेखांकित करती है।

इस मौके पर अल्मा परिवार की ओर से सर्वश्री अशोक कुमार, गौरव मगो, ओम मिश्रा, डॉ. राजीव श्रीवास्तव, डॉ. मोनिका नागौरी एवं सुश्री गंगा मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि श्री कलराज मिश्र अल्मा परिवार एवं इन्टरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट IBP के संरक्षक मण्डल में शामिल हैं। उनके सानिध्य एवं मार्गदर्शन से अल्मा परिवार एवं IBP गौरवान्वित होता रहा है। श्री मिश्र के पुस्तक विमोचन अवसर पर अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला, वाइस चेयरमैन प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा एवं डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने श्री मिश्र एवं लेखक श्री वंसत कुमार को बधाइयाँ दी।



प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा
शिक्षाविद्

मृत्यु प्रसन्नता का विषय

लोग मृत्यु को दुःख का विषय मानते हैं लेकिन सच तो यह है कि मरने वाले के लिये मृत्यु की अवस्था कष्ट की नहीं बल्कि विश्राम और चिर शांति की है। गीता के एक श्लोक का आशय यह है कि जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मौत तय है। मगर हम जन्म पर आनंदित होते हैं और मृत्यु पर दुःखी। जन्म व मृत्यु सापेक्ष है। यदि किसी स्थान पर मृत्यु न हुई तो दूसरे स्थान पर जन्म संभव नहीं है। प्रत्येक जीव की मृत्यु अटल है इसलिये इस विषय में भय, शोक, मोह से ग्रस्त होना फिजूल है। देह परिवर्तन को सहज भाव से स्वीकार करने की कला विकसित करने की आज इसलिये अधिक जरूरत है क्योंकि स्थूल शरीर और उसके नाम से समाज में कुरीतियाँ नये-नये अंदाज़ में अपना घर बना रही है। मरघट पर आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभायें सामान्यतः नकली होती हैं। भाषण-बाज लोग मृत

घटिया आदमी को भी महान समाजसेवी बता देते हैं। यदि ये सबकुछ केवल दाह संस्कार में लगाने वाले 'समय को पास' करने का प्रयोजन मात्र है तो शोर शराबे के आज के युग में क्या हम घंटे-आधे घंटे मौन नहीं रह सकते? गीता कहती है मृत्यु, आत्मा के नये वस्त्र धारण करने की क्रिया है। क्या नये कपड़े पहनते समय हम भाषण सुनना पसंद करते हैं?

शमशान घाट में हमारे मोबाइलों पर अक्सर गूँजती हुई 'रिंग टोन्स' इस बात का सबूत हैं कि किसी एक के मरने से किसी दूसरे को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम तो यहाँ भी औपचारिकता ही ढो रहे हैं। आडंबरों ने मनुष्य से उसकी असलियत छीन ली है।

प्रो. राजीव शर्मा की अन्य रचनाओं के लिये
www.kavirajeevsharma.com देखिये)
E-mail : kavirsharma@yahoo.co.uk

आगामी वर्षों में जानापाव का विकास कार्य चहुँमुखी होगा- पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला


मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं आई.टी. मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रोत्साहन से गतिशीलता बढ़ी



इन्दौर। भगवान परशुरामजी की जन्म स्थली तथा हिन्दुओं के तीर्थ स्थानों में प्रमुख जानापाव पर विकास कार्य आगामी वर्षों में चहुँमुखी होगा। इसे ब्राह्मण संगठनों तथा शासन के सहयोग के साथ शीघ्रता से मूर्तरूप दिया जाएगा। उक्त विचार वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कान्यकुब्ज ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला ने व्यक्त किए। श्री शुक्ला ने कहा कि जानापाव मंदिर का विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसे ब्राह्मण संगठनों के एवं शासन के सहयोग से आगामी वर्षों में बेहतर रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रकट किए। अल्मा की ओर से डायरेक्टर संतोष शुक्ला, एडवोकेट, गुजरात के उद्योगपति श्री तरुणभाई रावल, श्री हिरेन त्रिवेदी, श्री चेतन शर्मा, डॉ. भरत ओझा, श्री देवेश वाजपेयी, श्री निर्मल दुबे, श्री दुर्गानारायण तिवारी, श्री प्रकाश मिश्रा, श्री राजेश शुक्ला, डॉ. प्रदीप मिश्र, श्री आशीष मिश्र, श्री अनूप शुक्ला, एडवोकेट लालजी तिवारी, श्री सुदेश तिवारी, श्री ऋषि पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे।

डॉ. जोशी एवं श्री कलराज मिश्र IBP के संरक्षक मण्डल में

ब्राह्मण समाज के विकास कार्यों में जागरूकता बढ़ाएंगे



नई दिल्ली। इन्टरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट (IBP) के अध्यक्ष संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने बताया कि पूर्व मानव संसाधन मंत्री डॉ. मुरलीमनोहर जोशी एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र ने IBP के संरक्षक मण्डल हेतु अपनी सहमति प्रदान कर संगठन को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। IBP का विस्तार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है एवं विदेशों से ब्राह्मण संगठनों ने IBP के साथ सहयोग प्रकट की है। श्री शुक्ला ने कलराज मिश्र लम्बे समय वसुधैव कुटुम्बकम् के कार्य कर ब्राह्मण देते रहे हैं। IBP के लिए का विषय है कि उसके विद्वानों का सानिध्य प्राप्त मार्गदर्शन के माध्यम से करेगा।

श्री शुक्ला ने बताया कि IBP के माध्यम से विश्व के अन्य संगठनों को जोड़ने का कार्य जारी है एवं अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलनों के माध्यम से विकास कार्यों को मूर्तरूप देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 के सितम्बर माह में लंदन में एक अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की जा रही है जिसमें विश्व के कई देशों से ब्राह्मण संगठन भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर IBP के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।



सूरत के तरुणभाई रावल का अल्मा में सम्मान



इन्दौर। गुजरात राज्य के चर्चित शहर सूरत से अपने बिजनेस की शुरुआत कर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को अंजाम देने वाले वरिष्ठ उद्योगपति श्री तरुणभाई रावल पिछले दिनों म.प्र. के प्रवास के दौरान अल्मा के कार्यालय में पहुँचे। इस अवसर पर अल्मा परिवार के द्वारा उनको अभिनन्दन-पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर श्री रावल ने अल्मा परिवार के सदस्यों से विकास, सफलता तथा प्रबंधन के आधुनिक मॉडल पर विस्तृत चर्चा कर प्रेक्टिकल एवं थियोरिटिकल मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए लाभान्वित किया। इस दौरान जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला, श्री सुरेश वर्मा, डॉ. प्रियंका शुक्ला, श्री राजेश शुक्ला, डॉ. दिलीप एन. पंडित, डॉ. नीना जैन, डॉ. मोनिका नागौरी, डॉ. प्रदीप मिश्र, डॉ. राजीव श्रीवास्तव, श्रीमती चेतना निचानिया, श्रीमती सुगंधा गौर, श्रीमती पल्लवी त्रिपाठी, सुश्री मुक्ता डेंगरा, सुश्री अंकिता सूरी, सुश्री स्नेहा मोटलानी, संजय पंजवानी एवं डॉ. भरत ओझा, आशीष मिश्रा, ऋषि पाण्डेय, राहुल गौड़, भूपेन्द्र तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

IBP द्वारा अ.भा. कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री पंकज शर्मा का सम्मान



इन्दौर। अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने श्री पंकज शर्मा जी का सम्मान IBP की सदस्यता प्रमाण-पत्र भेंट कर किया। श्री पंकज शर्मा अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संसद के संरक्षक मण्डल के सदस्य हैं व उनका मार्गदर्शन संगठन को समय-समय पर मिलता रहता है।

इस अवसर पर श्री शर्मा ने IBP द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सम्मान समारोह में IBP की ओर से पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला, श्री रामनारायण तिवारी, श्री अश्विन जोशी, श्रीमती शोभा ओझा, श्री चन्द्रप्रभाष शेरखर, श्री अनमोल तिवारी, श्री चेतन शर्मा, श्री भरत शर्मा, डॉ. भरत ओझा, डॉ. प्रदीप मिश्र, श्री राजेश शुक्ला, श्री आशीष मिश्रा, श्री दीपक जोशी, श्री अतुल तिवारी, श्री विजय तिवारी, श्री भूपेन्द्र तिवारी आदि गणमान्य उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संसद देश के सभी राज्यों में अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य कर रही है। अतः इन्दौर में लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष, विधानसभाओं व वार्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति किये जाना शेष है। आगामी 6 महीनों में इन्दौर शहर व जिला की नियुक्ति का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।



अल्मा परिवार में होली मिलन समारोह

मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री पंकज शर्मा थे

इन्दौर। अल्मा परिवार में होली मिलन समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संगठन व अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संसद के सदस्यगण भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से पधारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व वरिष्ठ पत्रकार श्री पंकज शर्मा उपस्थित थे। अध्यक्षता अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पं. रामनारायण तिवारी, श्री चन्द्रप्रभाष शेखर (पूर्व मंत्री म.प्र. शासन), श्री रामेश्वर पटेल (पूर्व मंत्री म.प्र. शासन), श्री अश्विन जोशी (विधायक), श्रीमती शोभा ओझा (वरिष्ठ नेत्री म.प्र. कांग्रेस कमेटी), (श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, डायरेक्टर, अल्मा) श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय (रिटायर्ड लेबर कमिश्नर), श्री

कमल वर्मा (सचिव, म.प्र. कांग्रेस कमेटी), श्री जितेन्द्र त्रिपाठी (एडवोकेट), श्री दीपक जोशी (शहर अध्यक्ष, युवक कांग्रेस), श्री हरीश विजयवर्गीय (समाजसेवी), श्री अनमोल तिवारी (समाजसेवी), श्री मांगीलाल रेडवाल (पार्षद), श्री भरत शर्मा (सचिव, IBP), श्री संतोष गौतम (उपाध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी), श्री अतुल तिवारी (नेता युवक कांग्रेस), श्री विकास अवस्थी (युवा नेता, भा.ज.पा.), श्री अनूप शुक्ला (महामंत्री, शहर कांग्रेस कमेटी) आदि गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इस अवसर पर सभी ने होली की हार्दिक शुभकामनाएँ दी। अतिथियों का स्वागत अल्मा के समस्त पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन अल्मा एवं IBP के सचिव डॉ. भरत ओझा ने किया व आभार राजेश शुक्ला ने व्यक्त किया।



उदयपुर के इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला अल्मा परिवार में शामिल



उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में पदस्था इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला अल्मा परिवार में शामिल हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला को अल्मा परिवार में जुड़ने पर हार्दिक शुभकामनाएँ दी।

IBP द्वारा महाराष्ट्र इकाई के विद्वानों का सम्मान समारोह



मुंबई। इंटरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट (IBP) के तत्वावधान में महाराष्ट्र इकाई के द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कुशल योगदान दे रहे विद्वानों का सम्मान किया गया। उक्त जानकारी IBP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. प्रदीप मिश्र ने दी। कार्यक्रम की शुरुआत में IBP महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्व. प्रेमचन्द्र

मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रवक्ता डॉ. प्रदीप मिश्र ने कहा कि IBP का उद्देश्य देश ही नहीं बल्कि विश्व में वैदिक ज्ञान एवं संस्कारों को प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। IBP की युवा विंग के गठन के माध्यम से युवा शक्ति को नेतृत्व सौंपा जाएगा, ताकि वे नैतिक मूल्यों को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचा सकें। इस अवसर पर श्री रामकृष्ण पाण्डेय ने कहा कि इंटरनेशनल ब्राह्मण पार्लियामेंट के माध्यम से जनजागृति के साथ-साथ हमें सामाजिक सुधार की दिशा में युवा शक्ति को सक्रिय बनाना होगा। इसी मौके पर श्री विश्वनाथ पाण्डेय ने अपने वक्तव्य में कहा कि IBP एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से देश की संस्कृति एवं वैदिक विरासत विश्व स्तर पर पहुँचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे विद्वानों में सर्वश्री रामकृष्ण पाण्डेय, विश्वनाथ पाण्डेय, कृष्णानंद दुबे, दिलीप मिश्र, चन्द्रभान मिश्र, लालचन्द्र त्रिपाठी, राजमणि दुबे, रमेश शुक्ला एवं योगेश त्रिपाठी का अभिनन्दन-पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सरस्वती पूजन के पश्चात् अतिथियों का स्वागत श्री जगदीप मिश्र एवं आनन्ददीप मिश्र ने किया। समारोह का कुशल संचालन श्री कुलदीप मिश्र ने एवं आभार श्री दिलीप मिश्र ने व्यक्त किया।



Santosh Shukla, Advocate
Director, Alma Limited

E-mail : director@alma.in

Alma redefine the success with growth

I would like to congratulate all of you being our member of Alma Family, being franchise, well wisher and associates in the success journey of Alma for last 12 years. Now Alma has started new year of its adventure for social and educational cause along with your co-operation and deep rooted faith with us. Since its inception, Alma has been philanthropic in serving society through educational cause and especially the computer education and computer literacy so that the cross section of the society could get benefitted from technological development and contributed its talent for national growth. Alma has now been working all across the country from remote rural and tribal belts of the country to major cities and metropolitan cities encoring students for computer and IT education. In the entrance of 13th year Alma has come up with its new project Alma Kids- The International Play School. Alma Kids has been conceptualized and synchronized with the latest global standard existing right now. Alma Kids is one of the leading play school concept that could encourage educational market of franchising sector for promoting growth. Alma Kids would surely inspired new players of educational sphere. There is no doubt that education of kids plays vital role in every society across the world. Every parent wants to educate its child in better ambience of learning. Here Alma Kids would fulfill that lacunae. Alma Kids would support and adopted new methodology of child psychology and cognitive fore more energetic way. I would like to thank you all for being with us as the members of Alma's growth for last 12 years. Your faith, mutual understanding and willpower have appreciated and I hope that would continue in year to come.

प्रतापगढ़ (उ.प्र.) की प्राची मिश्रा को अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार



प्रतापगढ़। उत्तरप्रदेश की सात वर्षीय नन्हीं बालिका प्राची मिश्रा ने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में दिल्ली, बिहार, म.प्र., राजस्थान व उ.प्र. के तमाम प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिसके लिए प्रयाग संगीत समिति के मेहता हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में प्राची मिश्रा को प्रयाग संगीत समिति के अध्यक्ष डॉ. मिलन मुकर्जी द्वारा लोकगीत का प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्राची मिश्रा ग्राम-पूर हरिदन्त राजापुर बिन्धन प्रतापगढ़ उ.प्र. के निवासी तथा अल्मा परिवार के सदस्य विनोद शंकर मिश्र की सुपुत्री हैं जो कि आकाशवाणी इलाहाबाद में लोकगीत के कलाकार हैं। प्राची मिश्रा ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की है। प्राची की सफलता पर अल्मा परिवार के पदाधिकारियों ने बधाइयाँ दी।

अल्मा गुजरात की वर्षा त्रिवेदी की मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट



गाँधीनगर। अल्मा गुजरात की श्रीमती वर्षा त्रिवेदी ने पिछले दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अल्मा की सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर श्री अश्विन त्रिवेदी, एडवोकेट भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि श्री एवं श्रीमती त्रिवेदी पिछले 13 वर्षों से अल्मा परिवार से जुड़े हैं एवं अल्मा के चहुँमुखी विकास में अपना सक्रिय योगदान देते रहे हैं। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी।

Alma VTP Programme जुलाई से

ALMA HQ: अल्मा की जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला ने बताया कि अल्मा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी कई नये पाठ्यक्रमों की शुरुआत जुलाई से होने जा रही है। VTP के अन्तर्गत करीब 200 नये कोर्सेस की शुरुआत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में की जावेगी जिससे रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के IC, CC सेन्टर के लिए सम्पर्क करें

इन्दौर। अल्मा द्वारा विश्वविद्यालय कार्यों की प्रभारी अंकिता सूरी ने बताया कि अल्मा व आयटा के समस्त शाखा प्रबंधक अपनी शाखा पर विश्वविद्यालय (UGC) द्वारा डिग्री व डिप्लोमा प्रोग्राम की मान्यता के लिए संपर्क करें। विश्वविद्यालय अल्मा के माध्यम से IC, CC सेन्टर की मान्यता प्रदान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र शासकीय नौकरियों, पटवारी, बैंकिंग आदि जगह मान्य किये जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अंकिता सूरी से ankita@alma.in पर संपर्क करें।

अल्मा विस्ताराधिकारी आशीष मिश्रा ने किया उत्तरप्रदेश सेन्टर का निरीक्षण



इन्दौर। विगत दिनों अल्मा के विस्तार अधिकारी श्री आशीष मिश्रा ने उत्तरप्रदेश प्रवास के दौरान प्रतापगढ़ जिले में चल रहे समस्त सेन्टरों का निरीक्षण किया। जिसमें उनके साथ श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी भी सम्मिलित रहे। इस दौरान कमासिन, जेठवारा, प्रतापगढ़ आदि अल्मा सेन्टरों का निरीक्षण कर वहाँ के सेन्टर हेड क्रमशः सर्वश्री अजय सिंह, राकेश सिंह एवं आशीष चंद्र मिश्रा से गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सेन्टरों पर विद्यार्थियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन दिया।

कैप्टन सतीश शर्मा, जनार्दन द्विवेदी तथा महाबल मिश्रा अल्मा मार्गदर्शन मण्डल में

प्रदान की है। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने बताया कि कैप्टन सतीश शर्मा, श्री जनार्दन द्विवेदी एवं श्री महाबल मिश्रा के मार्गदर्शन में अल्मा परिवार को न केवल प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनके सानिध्य में अल्मा आने वाले वर्षों में नई सफलताओं की इबारत लिखेगी। इस मौके पर अल्मा परिवार के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने हर्ष प्रकट किया।

सांसद मदनलाल शर्मा अल्मा के संरक्षक मंडल में

नई दिल्ली। अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने बताया कि जम्मू के सांसद श्री मदनलाल शर्मा अल्मा के संरक्षक मंडल में शामिल हुए हैं। श्री शर्मा का मार्गदर्शन अल्मा के सभी शाखा प्रबंधकों को मिलता रहेगा। अल्मा जम्मू क्षेत्र में श्री शर्मा के मार्गदर्शन में सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगी। इस अवसर पर जम्मू अल्मा के श्री जगदीश शर्मा, श्रीमती ज्योति शर्मा एवं श्री राजेश शुक्ला ने हार्दिक शुभकामनाएँ दी।

शिर्डी (महाराष्ट्र) के डॉ. आबासाहेब कोटस्थाने का अल्मा द्वारा सम्मान

शिर्डी। अल्मा के डायरेक्टर सन्तोष शुक्ला, एडवोकेट ने बताया कि शिर्डी के डॉ. आबासाहेब कोटस्थाने की सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए अल्मा द्वारा सम्मान-पत्र प्रदान किया गया। अल्मा के श्री सुनीष त्रिपाठी व श्रीमती पल्लवी त्रिपाठी ने सम्मान-पत्र भेंट किया। इस अवसर पर डॉ. कोटस्थाने को सर्वश्री-एम. जोशी, आनंद भावसर, स्वप्निल चकोले, कुलदीप मिश्र एवं श्रीमती लीना सप्रा आदि अल्मा महाराष्ट्र के सदस्यों ने हार्दिक बधाइयाँ दी।

वृद्धों की सेवा महान सामाजिक कार्य - पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला



इन्दौर। वृद्ध हमारे समाज के अमूल्य मार्गदर्शक हैं जिनके अनुभवों का लाभ हमें ग्रहण करना चाहिए। वृद्धों की सेवा महान सामाजिक कार्य है। उक्त विचार अल्मा के चेयरमैन पं. विष्णुप्रसाद शुक्ला ने कल्याण मित्र समिति की वार्षिक विवरणिका के विमोचन के अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृद्धों की सेवा करना अर्थात् ईश्वर प्राप्ति से मिलने वाले परमानन्द के तुल्य है। इस दौरान जनपद अध्यक्ष श्रीमती करुणा शुक्ला, अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, जनरल मैनेजर डॉ. सुचिता शुक्ला, डॉ. प्रदीप मिश्र, श्री प्रकाश मिश्रा, सुश्री स्नेहा मोटलानी सहित कल्याण मित्र समिति के श्री अनोखीलाल वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री वर्मा ने बताया कि समिति के द्वारा आस्था वृद्धाश्रम संचालित किया जाता है जिसमें 80 से अधिक वृद्धों की आत्मिक देखभाल की जाती है तथा उनके मनोरंजन एवं चिकित्सा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। इस आश्रम को शासकीय अनुदान प्राप्त नहीं होता है तथा अल्मा के सहयोग से पत्रिका का प्रकाशन एवं कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देते हुए निर्धन कन्याओं को कम्प्यूटर शिक्षा देकर उन्हें प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। अल्मा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए डायरेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि अल्मा पिछले 12 वर्षों से इन्दौर ही नहीं प्रदेश स्तर के साथ-साथ देश के पिछड़े व ग्रामीण इलाकों में परमार्थिक कार्यों को अंजाम देती रही है ताकि समाज के वृद्धों और प्रतिभावान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके।

THE GLOBAL VOICE

India's Leading Brand of
Computer Education



Alma Limited

"Alma House", 18/3, Pardeshipura,
Near Electronic Complex, Indore - 452003 (M.P.) INDIA
Tel.: 0731-4222242, 4222252 | Fax : 0731-2573779
Email : director@alma.in
Helpline : 0999 39 50000



अल्मा वाराणसी कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ

क्षेत्र के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा के आधुनिक कोर्सेस करने का अवसर

वाराणसी। देश ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर कम्प्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में चर्चित ब्रांड के रूप में शुमार अल्मा ने उत्तरप्रदेश के विद्यार्थियों एवं युवावर्ग को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने के लिए न्यूनतम शुल्क पर आधुनिक कम्प्यूटर कोर्सेस प्रदान किए हैं जिससे समाज का हर विद्यार्थी अध्ययन कर सके। उक्त विचार अल्मा वाराणसी सेन्टर के प्रमुख श्री आशीष श्रीवास्तव एवं श्री राजशेखर त्रिपाठी ने उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस सेन्टर में अल्मा के सभी आधुनिक कोर्सेस का संचालन किया जाता है जो न केवल रोजगारोन्मुखी है बल्कि आम वर्ग के विद्यार्थियों के पहुँच के अन्दर आते हैं। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने आधुनिक आई.टी. शिक्षा, इन्टरनेट



का महत्व तथा कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि अब हर विद्यार्थी को कम्प्यूटर शिक्षा का ज्ञान आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि बगैर कम्प्यूटर शिक्षा के हमें रूचि का रोजगार प्राप्त नहीं हो सकेगा इसलिए यह जरूरी है कि हम कम्प्यूटर शिक्षा के आधुनिक कोर्सेस को अपनी औपचारिक कोर्सेस के साथ पूर्ण कर आत्मविश्वासी बनें और देश के विकास को मजबूत बनाएं। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। समारोह का संचालन व आभार श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी ने व्यक्त किया।

अल्मा गुहाना (हरियाणा) सेन्टर पर फैन्सी ड्रेस



गुहाना। अल्मा के गुहाना सेन्टर में ग्रीडिंग किड्स द्वारा फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने अपनी-अपनी प्रतिभा दिखाई। महक (जलपरी), ईशिता (परी), तन्वी लूथरा (गोवा गर्ल) व तुषार (केरला बॉय) समारोह का मुख्य आकर्षण रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे एक्स्ट्रीम एजुकेशनल सोसायटी के चेयरमैन भारत लूथरा ने बच्चों को पढ़ने के साथ-साथ शैक्षणोत्तर क्रियाओं के लिए भी प्रोत्साहित किया व पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृच की अध्यक्ष श्रीमती अंजू ठकराल ने की। इस मौके पर मोनिका लूथरा, दीपा चावला, हर्ष, संजीव, नव्या, कपिल, नवीन, प्रियंका व शिल्पा का सहयोग रहा।

प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा का नागपुर (महाराष्ट्र) में सम्मान



नागपुर। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा को विवेकानंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका सम्मान नागपुर के महापौर श्री अनिल सोले द्वारा किया गया। अ.भा. कवि सम्मेलन में प्रो. शर्मा के अलावा सर्वश्री हरिओम पेंवार, सांड नरसिंहपुरी, सुमन दुबे ने भी काव्य पाठ किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री दयाशंकर तिवारी ने अतिथियों का परिचय दिया। इस अवसर पर अल्मा परिवार के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने प्रो. (डॉ.) राजीव शर्मा को बधाइयाँ दी।

कबड्डी के क्षेत्र में लकी वंडर्स क्लब का योगदान



इन्दौर। कबड्डी हमारे देश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित खेलों में एक। भारत के इस मुख्य खेल को अन्य ग्लैमराइज्ड खेलों की तुलना में शायद इतना ज्यादा तवज्जो दी गयी हो मगर इस खेल ने अपने जानदार खिलाड़ियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय अवाइड भारत को दिए हैं। माँ अहिल्या की नगरी इन्दौर में लगभग 40 वर्षों से कबड्डी के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य लकी वंडर्स स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया जाता रहा है। उक्त विचार क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री रामचन्द्र पाण्डेय ने एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्त किए।

श्री पाण्डेय ने लकी वंडर्स की शुरुआत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्व. हरिकिशन जी अग्रवाल सर्वश्री अनन्त गिर्द, चन्द्रसेन लंभाते, गुलाब चांदवानी, राजेन्द्र जैन तथा रमेश यादव जैसे व्यक्तित्वों की लगन और विचारधारा से लकी वंडर्स नये-नये आयामों में प्रकट होता रहा है। लगभग चार दशक के इतिहास में क्लब ने दर्जन राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया इतना ही नहीं लकी वंडर्स ने अपने खिलाड़ियों के माध्यम से छ: गोल्ड कप प्रदेश के लिए जीतकर इतिहास बनाया है। देशभर के कबड्डी के खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में क्लब ने सदैव सक्रिय भूमिका अदा की है।

म.प्र. अमेन्चोर कबड्डी एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अपने सक्रिय योगदान देने वाले श्री पाण्डेय को हाल ही में मुख्यमंत्री राज्य खेल 2013 में तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया है। इस के पूर्व श्री पाण्डेय क्लब की ओर से पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की यात्राएँ कर कबड्डी को ऊँचाईयाँ दी। अल्मा परिवार ने बधाइयाँ दी। - आदित्य पंडित

देहरादून में अल्मा कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ शीघ्र



देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय लीडिंग ब्रांड अल्मा द्वारा उत्तरांचल के देहरादून में अपने नये कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर का शुभारंभ शीघ्र किया जाएगा। उक्त जानकारी अल्मा की विकास अधिकारी डॉ. मोनिका नागौरी ने दी। डॉ. नागौरी ने दी गई जानकारी में बताया कि नेहू कॉलोनी, हरिद्वार रोड स्थित इस सेन्टर के माध्यम से अल्मा के सभी कम्प्यूटर शिक्षा के कोर्सेस का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देहरादून में सेन्टर हेड श्री बी.पी. गेयाराला (भास्कर) अपने फैकल्टी स्टाफ के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।

पब्लिक प्रोसिक्चर रविन्द्र देसाई एवं एडवोकेट नरेन्द्र शर्मा का अल्मा फाउन्डेशन द्वारा सम्मान



इन्दौर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित ब्रांड अल्मा न केवल कम्प्यूटर शिक्षा एवं आई.टी. शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रही है बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित करने का यज्ञ कार्य कर रही है। अल्मा के सामाजिक चेतना से जुड़े सरोकार निःसंदेह अनुकरणीय हैं। उक्त

विचार जिला न्यायालय इन्दौर के पब्लिक प्रोसिक्चर रविन्द्र देसाई एवं हार्ड कोर्ट एडवोकेट नरेन्द्र शर्मा ने अल्मा के सम्मान समारोह में व्यक्त किए। उक्त जानकारी अल्मा के डायरेक्टर श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट ने दी। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने बताया कि इन्दौर के बहुचर्चित दुष्कर्मी चाचा के मामले में न्यायालय में सजा दिलवाने की दिशा में श्री देसाई का योगदान निःसंदेह सामाजिक न्याय की दिशा में सशक्त भूमिका को रेखांकित करता है। उक्त मामले में आरोपी को फौसी की सजा सुनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि श्री देसाई एवं एडवोकेट नरेन्द्र शर्मा अल्मा परिवार में पिछले एक दशक से जुड़े रहे हैं एवं समय-समय पर अल्मा के विकास एवं सक्रियता में अपनी अहम भूमिका अदा करते रहे हैं। अल्मा ने सदैव समाज में अपने अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तित्व का सम्मान कर उनके आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। इस अवसर पर अल्मा परिवार के सभी सदस्यों ने श्री देसाई एवं श्री शर्मा को बधाइयाँ दी।



अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संगठन

www.aiita.org

ALL INDIA IT ASSOCIATION

राष्ट्रीय गतिविधियाँ



ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन (आयटा) ने अपने राष्ट्रीय अभियान के तहत पिछले दिनों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम तथा दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में गतिविधियों को नया आयाम देते हुए ऊँचाइयाँ हासिल की। आयटा का उद्देश्य न केवल देश के दूरदराज क्षेत्रों के युवाओं में कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए

आत्मविश्वासी बनाना है। आयटा के इस सफर में आईटी प्रोफेशनल, आईटी कम्पनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साइबर कैफे तथा अन्य टेक्नोक्रेट्स जो सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं उन्हें आयटा अपने मिशन एवं विजन के साथ अपने विशाल परिवार में शामिल कर रही है, यदि आप आयटा के सफर में शामिल होना चाहते हैं, तो आयटा के सेक्रेटरी डॉ. राजीव श्रीवास्तव से मो. नं. 07828774672 फोन: 0731-4055551 एवं ई-मेल info@aiita.org, support@aiita.org पर संपर्क कर सकते हैं।

ग्रामीण शिक्षा (प्रा.लि.) फतेहाबाद हरियाणा को आयटा की सदस्यता

फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र में स्थित ग्रामीण शिक्षा प्रा. लि. संस्थान को ऑल इंडिया आईटी. एसोसिएशन (आयटा) ने पिछले दिनों अपनी सदस्यता प्रदान की।

इस अवसर पर ग्रामीण शिक्षा के पदाधिकारी श्री शलेन्द्र सिंह ने कहा कि वे आयटा के उद्देश्य के प्रचार-प्रसार में अपना सक्रिय योगदान देंगे।

ग्रामीण शिक्षा की सदस्यता पर आयटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, वाइस प्रेसीडेंट डॉ. दिलीप एन. पंडित, सचिव डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहित आयटा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री सिंह को बधाइयाँ दी।

वड़ोदरा (गुजरात) में आयटा स्टूडी सेन्टर का शुभारंभ

वड़ोदरा। गुजरात राज्य के ऐतिहासिक शहर वड़ोदरा में ऑल इंडिया आईटी. एसोसिएशन (आयटा) ने पिछले दिनों अपने नये स्टूडी सेन्टर का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री अभिषेक मोंगरे ने बताया कि हमारे सेन्टर पर आयटा से जुड़े समस्त रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर शिक्षा के कोर्सेस का संचालन किया जाता है। विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस कुशल फैंकल्टी स्टाफ के माध्यम से दिया जाता है।

आयटा के वड़ोदरा स्टूडी सेन्टर की शुरुआत पर आयटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, वाइस प्रेसीडेंट डॉ. दिलीप एन. पंडित, सचिव डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहित आयटा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री मोंगरे एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

रीवा (मध्यप्रदेश) में आयटा के स्टूडी सेन्टर की शुरुआत

रीवा। मध्यप्रदेश का रीवा जिला न केवल अपने क्षेत्र के सफेद शेरों को लेकर चर्चित रहा है बल्कि आईटी. शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दे रहा है। पिछले दिनों ऑल इंडिया आईटी. एसोसिएशन (आयटा) ने अपने स्टूडी सेन्टर की यहाँ शुरुआत की।

इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री राहुल भारती ने बताया कि उनके सेन्टर पर आयटा के सभी रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़े कोर्सेस का अध्ययन कुशल फैंकल्टी स्टाफ के माध्यम से कराया जाता है एवं विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस दिया जाता है।

आयटा के रीवा स्टूडी सेन्टर की शुरुआत पर आयटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, वाइस प्रेसीडेंट डॉ. दिलीप एन. पंडित, सचिव डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहित आयटा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री भारती एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

aiita courseware CDs release by Colombian Scientist Hernandez

INDORE: Computer education and Information Communication Technology (ICT) have been getting buzzword nowadays across the world owing to better employment option it's been really nice to educate student and youth through computer education technologies along with the application of computer technology of our daily chores. Mr. Hernandez congratulated aiita for promoting the cause of computer education and computer literacy among youth and students in the remote areas of the country that is indeed the need of the hour. This is informed by Dr Rajeev Shrivastav secretary of aiita.

On expressing his view Shri Abhay Praranjape spoke the significance of being computer literate and utility of computer knowledge in cyber age. Ms Aleta M. Macan echoed the importance of communication technologies along with the application of computer technology of our daily chores. Mr. Hernandez congratulated aiita for promoting the cause of computer education and computer literacy among youth and students in the remote areas of the country that is indeed the need of the hour. This is informed by Dr Rajeev Shrivastav secretary of aiita.



अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संगठन
All India Information Technology Association

www.aiita.org

आयटा के उद्देश्य को गतिशीलता दे रहा नागराकाटा स्टूडी सेन्टर



नागराकाटा। पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी में नागराकाटा क्षेत्र में पिछले दिनों ऑल इंडिया आईटी. एसोसिएशन ने अपने स्टूडी सेन्टर की शुरुआत की थी। यहाँ के युवा और विद्यार्थी वर्ग को कम्प्यूटर एवं आईटी. एजुकेशन से जोड़ने के लिए आयटा ने अपने स्टूडी सेन्टर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए हैं। इस स्टूडी सेन्टर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वीरेन्द्रनाथ प्रसाद ने बताया कि उनका सेन्टर आयटा के उद्देश्य के साथ युवा और विद्यार्थी वर्ग को आईटी. एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में गतिशील हो रहा है। क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक्सपर्ट फैंकल्टी स्टाफ के माध्यम से ट्रेड किया जा रहा है जिसका बेहतर रिस्पांस मिल रहा है।

आयटा के नागराकाटा स्टूडी सेन्टर की गतिशीलता पर आयटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, वाइस प्रेसीडेंट डॉ. दिलीप एन. पंडित, सचिव डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहित आयटा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री प्रसाद एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

कोटलानाला (सोलन, हिमाचल प्रदेश) में आयटा स्टूडी सेन्टर का शुभारंभ



सोलन। हिमाचल प्रदेश के सुन्दर शहर सोलन के कोटलानाला क्षेत्र में पिछले दिनों ऑल इंडिया आईटी. एसोसिएशन (आयटा) ने अपने नये स्टूडी सेन्टर का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री उमेश शर्मा ने बताया कि उनका सेन्टर आयटा के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करते हुए स्टूडी सेन्टर के माध्यम से विद्यार्थियों में आईटी. एवं कम्प्यूटर एजुकेशन को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है।

सोलन के कोटलानाला स्टूडी सेन्टर की शुरुआत पर आयटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, वाइस प्रेसीडेंट डॉ. दिलीप एन. पंडित, सचिव डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहित आयटा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री उमेश शर्मा एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

संधौर (पंजाब) में आयटा स्टूडी सेन्टर का शुभारंभ



संधौर। पंजाब के लोकप्रिय क्षेत्र संधौर में पिछले दिनों ऑल इंडिया आईटी. एसोसिएशन (आयटा) ने अपनी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए एक नये स्टूडी सेन्टर का शुभारंभ किया।

इस मौके पर यहाँ के सेन्टर हेड श्री हरमिन्दर सिंह ने बताया कि उनके सेन्टर पर आयटा के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़े सभी रोजगारोन्मुखी कोर्सेस का संचालन किया जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को कुशल फैंकल्टी स्टाफ के माध्यम से करियर एवं रोजगार गाइडेंस भी दिया जाता है।

आयटा के संधौर स्टूडी सेन्टर की शुरुआत पर आयटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला, एडवोकेट, वाइस प्रेसीडेंट डॉ. दिलीप एन. पंडित, सचिव डॉ. राजीव श्रीवास्तव सहित आयटा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने श्री हरमिन्दर सिंह एवं उनके स्टाफ को बधाइयाँ दी।

Alma Opens New Centre in Bhubaneswar (Odisha)



BHUBANESWAR: The leading global brand in Computer Education and IT Education across the country Alma has recently opened its new Computer Education Centre in Bhubaneswar Orissa to spread the awareness of Computer Education. On this occasion, The Centre Head Shri Bijan Kumar Barik said that all courses of Computer Education of Alma are being conducted by our faculty staff and career guidance to our students. He told that social and educational activities would be conducted for betterment of students. On the opening of Bhubaneswar Centre, Chairman Pt. Vishnu Prasad Shukla, Vice Chairman Prof. (Dr.) Rajeev Sharma, Director Shri Santosh Shukla, Advocate, GM Dr. Suchita Shukla, Dr. Rajeev Shrivastav and members of Alma family congratulated Shri Barik and his staff.

पत्रकारिता के क्षेत्र में अल्मा टाइम्स का कार्य सराहनीय: संत भय्यू महाराज



इन्दौर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, विज्ञान एवं आध्यात्मिक चेतना की ऊर्जा से सामाजिक एवं मानव कल्याण के कार्यों को गतिशील बनाने में समर्पित राष्ट्र संत प.पू. भय्यू महाराज के आश्रम में पिछले दिनों अल्मा परिवार के सदस्यों ने सौजन्य भेंट कर अल्मा की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर संतश्री ने अपनी ओजस्वी वाणी से अल्मा की गतिविधियों को प्रशंसनीय बताते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं लोक कल्याण की ओर अग्रसर होने के आशीर्वाचन देते हुए सकारात्मक पत्रकारिता से लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की ऊर्जा प्रदान की। अल्मा परिवार की ओर से अल्मा टाइम्स के सम्पादक डॉ. दिलीप एन. पंडित, श्री राजेश शुक्ला, डॉ. प्रदीप मिश्र एवं श्री संजय पंजवानी ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया।



Dr. Dilip N. Pandit
Editor, Alma Times

E-mail : press@alma.in

Earliest bursts of star formation during beginning of universe discovered

Distant, dust-filled galaxies were bursting with newborn stars much earlier in cosmic history than previously thought, a new study suggests.

So-called "starburst galaxies" produce stars at the equivalent of a thousand new suns per year.

Now, astronomers have found starbursts that were churning out stars when the universe was just a billion years old. Joaquin Vieira, a postdoctoral scholar at the California Institute of Technology and leader of the study said that these aren't normal galaxies.

"These galaxies [reveal star formation] at an extraordinary rate, when the universe was very young. I don't think anyone expected us to find galaxies like this so early in the history of the universe," Vieira said. An international team of astronomers found dozens of these galaxies with the National Science Foundation- (NSF) funded South Pole Telescope (SPT). SPT is a 10-meter dish in Antarctica that surveys the sky in millimeter-wavelength light, whose waves fall between radio waves and infrared on the electromagnetic spectrum.

The team then took a more detailed look using the new Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Chile's Atacama Desert, which is funded in part by NSF. ALMA is an international facility and is a partnership between North America, Europe and East Asia in cooperation with the Republic of Chile. "The new observations represent some of ALMA's most significant scientific results yet. We couldn't have done this without the combination of SPT and ALMA. ALMA is so sensitive, it is going to change our view of the universe in many different ways," Vieira said.

The research enables astronomers to study the earliest bursts of star formation and to understand how galaxies formed and evolved. Shining in the infrared with the energy of a trillion suns, these newly discovered starburst galaxies represent what the most massive galaxies in our cosmic neighborhood looked like in their star-making youth. With ALMA, the astronomers found that more than 30 percent of the new galaxies are from a time period just 1.5 billion years after the Big Bang. Previously, only nine such galaxies were known to exist, and it wasn't clear whether galaxies could produce stars at such high rates so early in cosmic history. Now, with the new discoveries, that number has nearly doubled, providing valuable data that will help other researchers constrain and refine computer models of star and galaxy formation in the early universe.

The findings are published in the journal Nature.

World Brahmin Federation, Canada and International Brahmin Parliament go in same zeal



CANADA: The teaching and philosophical values of Pt. Madan Mohan Malviya have always been worth learning and get positive through his ideological gems. Pt. Malviya has been great leader and reformer who pioneered many generation for educational cause. His leadership made us to realize our potential. There is no doubt that the teaching and values of Pt. Malviya would ever be guiding factor in our life and for generation of youth in years to come. There inspiring views were expressed by the president of World Brahmin Federation (WBF) Dr. Azad Kaushik during the function dedicated to recalling of Pt. Malviya. On this occasion, Number of scholars and erudite personalities of WEB shared their

views over Pt. Malviya teaching and anecdotes. Pt. Malviya's contribution towards educational cause has long been appreciated by the leadership and upcoming generation. Banaras Hindu University (BHU) and its ideology is reflected as the very characteristics of Pt. Malviya. The President of International Brahmin Parliament (IBP) Shri Santosh Shukla, Advocate congratulated Executive Council of World Brahmin Federation (WBF) for spreading value and heritage of Hindu culture across the world. He said IBP has already been performing many activities concerned with promotion of vedic culture across the world. He said the IBP and WBF will be work together. **-P. Anudeep**

Alma felicitates IT Students and Professionals in Srinagar (J&K)



SRINAGAR: Alma has long been associated with motivational activities to promote the educational cause across the country. IT Students and professionals are gems of our

national treasure. They must be motivated through felicitation. These views were expressed by development officer of Alma Mr. Tufail Majeed Bhat on the felicitation function of IT Profession at Srinagar.

On this occasion, Mr. Bhat shed the light on utilities of IT Education in employment sector and to have better opportunities in IT career. There were more than 25 IT students and professional those felicitated by Participation Certification. The Chairman of Alma, Pt. Vishnu Prasad Shukla, Vice Chairman Prof. (Dr.) Rajeev Sharma, Director Shri Santosh Shukla, Advocate congratulated all of them.

Alma Expands Activities in Manipur



IMPHAL: At the global scenario of Computer and IT Education, the pioneering brand Alma has been performing nice for last 12 years across the rural and tribal belts of the country as well inter continental countries of SAARC Organization. Recently Alma has started to expand its educational activities in Manipur state of North-East, under the leadership of young and dynamic personality Mr. Robindro Singh. This is informed by the director of Alma, Shri Santosh Shukla, Advocate. Shri Shukla further elaborated that Alma

has planned to promote Computer and IT Education in Manipur including all its districts. Mesmeric personality, Mr. Robindro would shoulder the responsibility to expand Alma Computer Education centres there. He would activate his team and motivate students and institute of Imphal (E), Imphal (W), Bishrupur, Churachandpur, chandel, senapati, tamenglong, thoubal and ukhul districts. On this occasion, Mr. Robindro spoke out the potential of computer education among youth and students.

Onbeing appointed development officer of Alma, Mr. Robindro was congratulated by Chairman Pt. Vishnu Prasad Shukla, Vice Chairman Prof. (Dr.) Rajeev Sharma, GM Dr. Suchita Shukla and all members of Alma Family.

Arvind Pandey (IG, CID) of Bihar blesses Alma Family



PATNA: The Senior Police Officer of Bihar Shri Arvind Pandey (IG Police) has been welcomed in Alma family being honorable member to get his blessing and guidance in years to come. Shri Pandey is highly educated and philanthropist by nature. His

guidance and blessing would surely motivate students of Alma and members of Alma family. This is informed by the Director Shri Santosh Shukla, Advocate.

In this occasion, members of Alma family look pride to be associated with such a mesmeric personality.

On this occasion the Chairman of Alma Pt. Vishnu Prasad Shukla and others congratulated.

5th Nullcon Information Security Conference gets momentum in Goa

Chief Minister Manohar Parikkar inaugural the conference


VASCODAGAMA: The conference was inaugurated by the Honorary Chief Minister of Goa Mr. Manohar Parikkar. He gave an enlightening speech on how cyber security is important to the nation. He encouraged to have more of such cyber security conferences and would support the same in the future.

There was a very good participation from the Govt. agencies at the conference which suggests that the Govt. of India has taken up cyber security as a critical agenda for the coming years as are keen on protecting the country's assets. Critical information infrastructure protection has become a serious issue considering that most things are interconnected today and attackers can remotely breach the systems and attack the infrastructure.

It was at nullcon Goa 2013: first time in the world that Govt. has come forward to the community and announced a bounty program to whoever provides critical information on the command and control servers of a malware recently found in one of the Govt. installations in India and the



prize for the bounty was INR 35000/-. One of the speakers at nullcon was able to hijack the command and control server of the attackers and won the bounty. This clearly shows the first signs of Govt. and community partnership in fighting cyber crimes in the country. The keynote given by Mr. Aravind Sitaraman, President inclusive growth, Cisco highlighted the need for securing sensitive campuses. Mr. Philippe Langlois, Founder P1 Security, France showcased the vulnerabilities in Telecom networks and how easy it is to bring down the whole network. This is informed by Shri Antariksh of nullcon.



Would you like to join hands for escalating business with us...! www.alma.in

INDIA • USA • CANADA • UK • MAURITIUS • AUSTRALIA